

प्रेस नोट दिनांक 17.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 12/13.06.2021 को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगला राठौर स्थित कुए में मिले युवक के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी, 02 कबाडी सहित कुल 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में एसओजी/ सर्विलांस टीम एवं थाना जसवंतनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12/13.06.2021 को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगला राठौर स्थित कुए में मिले युवक के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी, 02 कबाडी सहित कुल 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2021 को थाना जसवंतनगर पर वादी अजय कुमार पुत्र स्व० कालीचरन निवासी लोहामडीं थाना जसवंतनगर द्वारा अपने पुत्र कुश कुमार के दिनांक 12.06.2021 को अपने ई- रिक्शा में बैठाकर अपनी मां और अपने भाई को डॉक्टर के पास दवा दिलाने ले जाकर वहां से किसी अन्य सवारी को छोड़ने के बारे में कहकर जाना और बाद में घर पर न लौटकर आने के बारे में सूचना दी गई और यह भी बताया गया कि हमारे द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद कुश कुमार की ई- रिक्शा ग्राम निलोई के पास एक तालाब में पडा मिला तथा कुश कुमार को खोजने पर उसका शव ग्राम नगला राठौर के पास पवन कुमार पुत्र सुखराम के कुए में मिला । वादी की सूचना के आधार पर तत्काल थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा थाना जसवंतनगर पर मु०अ०सं० 245/21 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन किया गया था । गठित टीमों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक/ सर्विलांस एवं मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित कर मुखबिर की सूचना के आधार हत्या में संलिप्त 03 हत्यारोपियों को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत सैफई रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से युवक की हत्या के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त सनी (मृतक का चचेरा भाई) द्वारा बताया गया कि मृतक कुश कुमार मेरे चाचा का बेटा था और ई- रिक्शा चलाता था । अभियुक्त सनी एवं मृतक कुश कुमार के पिता के बीच पैतृक सम्पत्ति के बटवारे को लेकर मारपीट हुई थी जिसका बदला लेने के लिए मेरे व मेरे दो अन्य साथियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम निलोई स्थित ईंट भट्टे पर कुश कुमार को भाडे की कहकर ई- रिक्शा सहित बुलाया था जहां हम लोगों द्वारा योजना के अनुसार गमछे से गला दबाकर कुश कुमार की हत्या कर उसके शव को नगला राठौर स्थित कुए में फेंक दिया तथा उसके ई- रिक्शा से बैट्री निकाल कर ई- रिक्शा को ग्राम निलोई के पास तालाब में फेंक दिया उसके उपरांत हम लोगों ने सिरसा नदी के पुल के पास से फल विक्रेता के यहां से इन्वर्टर बैट्री को चोरी किया था तथा सभी ईन्वर्टर व बैट्री को बबलू कबाडी को बेच दिया था

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर कबाडी के यहां से मृतक के ई- रिक्शा की बैट्री व चोरी किये गये अन्य इन्वर्टर व बैट्री को बरामद कर 02 कबाडियों को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों द्वारा हत्या के उपरांत की गई मृतक के ई- रिक्शा बैट्री लूट के संबंध में थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/21 धारा 302,201 भादवि में धारा 392,411 भादवि की बढोत्तरी की गई है एवं कबाडियों से उक्त बैट्री बरामद होने पर उनके विरूद्ध 411 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- सनी पुत्र राजकुमार निवासी लोहा मंडी थाना जसवंतनगर इटावा
- 2- अमित शंखवार पुत्र अमरनाथ नि0 उपरोक्त ।
- 3- अमित गुप्ता पुत्र दिनेश कौशल नि0 उपरोक्त ।
- 4- बबलू पुत्र कल्लू नि0 फक्कडपुरा कस्बा व थाना जसवंतनगर (कबाडी)
- 5- सनी पुत्र कल्लू नि0 उपरोक्त (कबाडी)

बरामदगी-

- 1- 03 ई- रिक्शा बैट्री
- 2- 01 इन्वर्टर व 02 बैट्री (फल विक्रेता के यहां से चोरी की हुई)

पुलिस टीम- प्रथम टीम-उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री नवरत्न गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना जसवंतनगर मय टीम ।

नोट- उक्त घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25000/- के पुरस्कार की घोषणा की गई है ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा